



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 404]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2002/भाद्र 6, 1924

No. 404]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2002/BHADRA 6, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2002

सं. 88/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 608(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 146/ 94- सीमा-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम सं० 1 के सामने, स्तम्भ (3) में, -

(अ) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) उक्त माल का भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा या सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के आयातों के लिए या संबंधित राज्य के खेल प्राधिकरण द्वारा भारत या विदेश में होने वाली राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या स्पर्धा में उपयोग के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र के अधीन राष्ट्रीय खेल परिसंच द्वारा या रक्षा मंत्रालय में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत में आयात किया जाता है ;”;

(आ) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) आयातकर्ता, माल की निकासी के समय, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त :

सीमाशुल्क उपायुक्त को भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी का या सचिव, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड का अपने खर्च के आयातों के लिए या संबंधित राज्य के खेल प्राधिकरण के निदेशक का निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है,

(i) आयातकर्ता का नाम और पता और उक्त माल का वर्णन, और उसकी मात्रा और मूल्य, और

(ii) यह कि उक्त माल उपरोक्त शर्त (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं, ” ;

(ii) क्रम सं० 2 के सामने, स्तम्भ (2) में, -

(अ) मद VI क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ VI ख. कैरम

कैरम बोर्ड

VI ग. नाव चलाना, छोटी नाव चलाना और नाव की सैर करना

(1) नाव

(2) पैडल

(3) अर्गोमीटर

(आ) मद XIX और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“XIX. जल पोलो

(1) बॉल

(2) कैप ” ;

(इ) मद XXII में “ दूरबीन ” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) दूरबीन

(2) नाव और अन्य उपसाधन ” ।

[फा. सं. 356/30/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, जवर सचिव

टिप्पण :—अधिसूचना सं. 146/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित हुई थी तथा उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 24/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 121(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2002

No. 88/2002-Customs

G.S.R. 608(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) against S.No.1., in column(3),-

(A) for clause(a), the following shall be substituted,namely:-

“(a) The said goods are imported into India by a National Sports Federation or Services Sports Control Board in the Ministry of Defence, under a certificate issued by the Sports Authority of India or by the Services Sports Control Board for its own imports or by the Sports Authority of concerned State for use in a national or international championship or competition, to be held in India or abroad;”;

(B) for clause(b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) the importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs from an officer not below the rank of a Director in the Sports Authority of India or Secretary, in the Services Sports Control Board for its own imports or Director of Sports Authority of concerned State indicating-

- (i) the name and address of the importer and the description, quantity and value of the said goods; and
- (ii) that the said goods are required for the purpose specified in condition (a) above.”;

(ii) against S.No.2., in column(2),-

(A) after Item VIA. and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“ VIB. CARROM

Carrom Board

VIC. CANOEING, KAYAKING AND ROWING

(1) Boats

(2) Paddles

(3) Ergometers”;

(B) after Item XIX. and the entries relating thereto, the following shall be inserted ,namely:-

“ XIXA. WATER POLO

(1) Balls

(2) Caps”;

(C) in Item XXII, for the words “Binoculars”, the following shall be substituted, namely:-
 “ (1) Binoculars
 (2) Boats and other accessories”.

[F No 356/30/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note:—Notification No 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India Extraordinary vide G.S.R. 575(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended by notification No. 24/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, G.S.R. 121(E) dated the 1st March, 2002

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2002

सं. 44/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 609(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ये निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति संशोधन अथवा और संशोधन, जैसा कि मामला हो, किया जायेगा।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. तथा तारीख	संशोधन					
(1)	(2)	(3)					
1	6/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, (क) क्रम सं0 80क तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 तथा प्रविष्टि रखी जायेगी अर्थात्:-					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		“ 80क	4011.10 या 4013.10	सभी माल	कुछ नहीं	-	—”;
		(ख) क्रम सं0 80ख तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा					
		(ग) क्रम सं0 219क तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 तथा प्रविष्टि रखी जायेगी अर्थात्:-					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		“ 219ख	7315.00	शीर्ष सं0 87.12 के वाहन के चैन	कुछ नहीं	-	-
		219ग	8512.00	शीर्ष सं0 87.12 के वाहन के डाइनामो, हैड लैम साइड लैम टेल लैम	कुछ नहीं	-	—”;
2	10/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं0 10 एवं 11 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।					

[फा. सं. 332/9/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :—(1) मूल अधिसूचना सं. 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 43/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 22 अगस्त, 2002 [सा.का.नि. 591(अ), तारीख 22 अगस्त, 2002] द्वारा किया गया।

(2) मूल अधिसूचना सं. 10/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 131(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 2002 [सा.का.नि. 305(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2002] द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2002

No. 44/2002-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 609(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table; namely:-

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment																														
(1)	(2)	(3)																														
1.	6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification, in the Table,-</p> <p>(a) for S. No. 80A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :-</p> <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th></tr><tr><td>" 80A</td><td>4011.10 or 4013.10</td><td>All goods</td><td>Nil</td><td></td><td>"</td></tr></table> <p>(b) S. No. 80B and the entries relating thereto shall be omitted;</p> <p>(c) after S. No. 219A and the entries relating thereto, the following S. Nos and entries shall be inserted, namely :-</p> <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th></tr><tr><td>"219B.</td><td>7315.00</td><td>Chains of vehicles of heading No. 87.12</td><td>Nil</td><td></td><td></td></tr><tr><td>219C.</td><td>8512.00</td><td>Dynamos, head lamps, side lamps, tail lamps of vehicles of heading No. 87.12</td><td>Nil</td><td></td><td></td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	" 80A	4011.10 or 4013.10	All goods	Nil		"	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"219B.	7315.00	Chains of vehicles of heading No. 87.12	Nil			219C.	8512.00	Dynamos, head lamps, side lamps, tail lamps of vehicles of heading No. 87.12	Nil		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																											
" 80A	4011.10 or 4013.10	All goods	Nil		"																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																											
"219B.	7315.00	Chains of vehicles of heading No. 87.12	Nil																													
219C.	8512.00	Dynamos, head lamps, side lamps, tail lamps of vehicles of heading No. 87.12	Nil																													
2.	10/2002-Central Excise, dated the 1 st March, 2002	In the said notification, in the Table, S. Nos. 10 and 11, and the entries relating thereto shall be omitted.																														

[F.No. 332/9/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note: (1) The principal notification No.6/2002-Central Excise dated 1-3-2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 127 (E) dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No.43/2002-Central Excise dated the 22nd August, 2002 [G.S.R. 591 (E) dated the 22nd August, 2002].

(2) The principal notification No.10/2002-Central Excise dated 1-3-2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 131 (E) dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No.26/2002-Central Excise dated the 27th April, 2002 [G.S.R. 305 (E) dated the 27th April, 2002].

2703 G/03-2

